



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 1977/उपेख 9, 1899

No. 174] NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 1977/JYAISTHA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 30th May 1977*

**G.S.R. 257(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (1) of sub-section (2) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules, 1976, namely —

1. (1) These rules may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Fourth Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules, 1976, in rule 11 for the words "four hundred and seventy days" wherever they occur, the words "six hundred and eighty four days" shall be substituted

[No F. 3/1/77-UCU]

N. K PRASAD, Jt. Secy

## निर्माण और आवास मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, ३० मई, १९७७

सा० का० नि० २५७ (अ).—नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ३३) की धारा ४६ की उपधारा (२) के खण्ड (१) के साथ पठित उपखण्ड (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नियम, १९७६ में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

१. (१) इन नियमों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) चौथा संशोधन नियम, १९७७ कहा जाए।

(२) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियम, १९७६ के नियम-II में जहाँ कहीं भी “चार सौ सत्तर दिन” शब्द आएँ उनके स्थान पर “छः सौ चौरासी दिन” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

[स० का० ३, १७७—यू० सी० यू०]

एन० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निष्पन्नक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित १९७७

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977